

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019 — श्रावण 4, शक 1941

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-2/2019/6/7. — सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि, लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए।

अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना “जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019” जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए।

संलग्न :- पुनर्गठन योजना, 2019

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. पुनर्गठन की प्रक्रिया :-

- (क) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे।

- (ख) इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (ग) प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा। अभ्यावेदन निराकरण के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में रखा जावेगा :-
- (एक) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों।
- (दो) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा।
- (तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा (घ) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा।
- (चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी।
- (पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो, अर्थात् एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो।
- (छः) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो।
- (सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो।
- (आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो।
- (नौ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना निर्मित हो।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा।
- (ङ) अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (च) इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी।
- (छ) प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे।

06. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

07. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

08. प्रबन्ध :-

- (क) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिवरित हो जाएगा तथा सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप/सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे। एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। परन्तु अशासकीय व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हों।
- (ख) नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा।
- (ग) प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का नया निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका (क) में विहित अनुसार नियुक्त किया गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी।

09. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

10. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

11. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

12. आदेश जारी करने की शक्तियाँ :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुर्नगठन योजना, 2019

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. औधी प.क्र. 7	कंदाडी, पीटोपानी, आमाकोडो, हलोरा, बडमा, मुरझर, कोहका, बेलगांव, कांडे, रातवाही, मदनवाडा, खुलेडी, हुरके, बोरकन्हार, कलवर, मुंजाल, कुडकाल, दादरे	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मानपुर पं.क्र. 6
2	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मानपुर प.क्र. 7	जक्के, पदमरा, कोहका, घोडागांव, भादु, कुमुडकट्टा, उपरपाल, कहडबरी, अंडजाल, सिवनी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. भरीटोला पं.क्र. 8
3	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहला प.क्र. 13	देवरसुर, कोहडावार, लमती, गुलमौहा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. रेगाकठेरा पं.क्र. 11
4	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. गोटाटोला प.क्र. 5	डूडेश	
5	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. चिल्हाटी प.क्र. 3	परसाटोला, कातुलबाही, संसारगढ़, गरा, दुरेटोला	
6	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाढूटोला प.क्र. 4	कैकतीटाला, सोनसायटोला	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. रेगाकठेरा
7	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. चौकी प.क्र. 1	वाहमणीभेडी, तेलीटोला, गुन्दरदेही, किलारगौंदी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाढूटोला
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. रामपुर	मोखली, छुईखदान, सुकरी,	सेवा सहकारी समिति मर्या. पं.क्र. 32
9	सेवा सहकारी समिति मर्या.उपरवाह पं.क्र. 707	इंदावानी, बैगाटोला, ककरेल, महुवाभाटा, बिरेझर, थरहद	वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. सोमनी
10	सेवा सहकारी समिति मर्या.पदुमतारा पं.क्र. 950	परसबोड	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उपरवाह
11	सेवा सहकारी समिति मर्या.कोकपुर पं.क्र. 117	सागिनकछार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 तिलईरवार प.क्र. 1159
		चिरचारीखुर्द, सोमाझिटिया, तुमडीलेवा, करेठी	
12	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. कुमर्दा प.क्र. 1108	बंशी बंजारे	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खुर्सीटिकुल पं.क्र. 1110
13	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. तिलईरवार प.क्र. 1108	गलेरी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 डोगरगांव पं.क्र. 2020
		परेवाडीह, रानामटिया	
14	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मटिया प.क्र. 504	तुमडीकसा, बननवागांव, जामनारा, गोवालिनडीह, अरजकुंड, माटराखुज्जी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रतनभाट पं.क्र. 1308
15	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. साल्हेटोला	केशवटोला,	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनीचारभाटा पं.क्र. 153
		गाडाभवर, चीपा, डोरकी, कुसमी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुसरा पं.क्र. 1068
16	सेवा सहकारी समिति मर्या. रूवांतला पं.क्र. 944	खैरबना,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मोहारा पं. क्र. 1574
		डारागांव	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बेलगांव पं. क्र. 87
17	सेवा सहकारी समिति मर्या. द्वारा पं.क्र. 1436	नागतर्ई, हरिनसिंगी, धुसेरा, जटकनार	
		भरीटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पनियाजोब
18	सेवा सहकारी समिति मर्या. पनियाजोब पं.क्र. 1069	ठाकुरटोला,	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मडियान पं.क्र. 1375
		खूबाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 ला.ब.नगर

1	2	3	4
19	सेवा सहकारी समिति मर्या. मुसराकला पं.क. 1068	मडीतराई	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बेलगांव
20	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेलगांव पं.क. 87	कातुलवाही	सेवा सहकारी समिति मर्या0 ढारा
21	सेवा सहकारी समिति मर्या. ला.ब. नगर पं.क. 144	पटपर, भरवाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मेढा पं.क. 348
		उरईडबरी, झडातालाब	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोल्हापुरी
22	सेवा सहकारी समिति मर्या. कोल्हापुरी पं.क. 636	पारागांवखर्द	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुसरा
23	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. सीतागोटा पं.क. 1387	पीटेपानी, मासपहर, बुडहानछापर	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोरतलाव पं.क. 1073
		लमनाढार	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 मडियान
24	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. मडियान पं.क. 1375	चारभाटा, मोहनपुर, आलेदण्ड, भगवानटोला, घोरतलाव, फत्तेगंज, बंजारी, बजरंगीडीह	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 खोभा पं.क. 702
25	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. मुडीपार पं.क. 878	लछना, गातापार, जंगल, नवागांव, गाडघाट, निमउटोला, साकरी, बरगांव, करेलागढ, मलईदाह, टेमरी, दल्लीखोर, महुआढार, बोरला, सहारापुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 ईटार
26	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. ईटार पं.क. 981	टेकापार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुडीपार
		कलकसा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बढईटोला
27	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या. बढईटोला	गरापार, खपरीसिरदार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुडीपार
		धनेली, देवारीभाट	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमलीपारा
		कोहकाबोड, कोडेनवागांव	पं.क. 979
28	सेवा सहकारी समिति मर्या. जालबांधा पं.क. 975	मडौदा, बफरा, जुनवानी, बोदरी, बरसूली, बोधागढ	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अतरिया पं.क. 102
		हरदी, राहुद	समिति सलोनी
29	सेवा सहकारी समिति मर्या. सलोनी पं.क. 1019	चंदैनी, अछोली, बोरी, झूडा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अतरिया
30	सेवा सहकारी समिति मर्या. अमलीपारा पं.क. 979	ढोलियाकन्हार, केराबोरी, पेण्डीखुर्द	सेवा सहकारी समिति मर्या0 डोकराभाटा पं.क. 82
31	सेवा सहकारी समिति मर्या. झुरानदी	आमगांव, लझीयाटोला, बागमर्मा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोपालपुर
32	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोपालपुर पं.क. 1063	खुरसुली, गेडरा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 झुरानदी
33	सेवा सहकारी समिति मर्या. धोधा पं.क. 962	कासीटोला, हरडंडा, मजगांव	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बरबसपुर पं.क. 959
34	सेवा सहकारी समिति मर्या. हनईबन पं.क. 1491	भुरभुसी, टीकरीपारा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गण्डई पं.क. 898
35	सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाबा	रवेली	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सुरगी
36	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोमनी	खुटेरी, ईरा, टेडेसरा, देवदा, कोपेडीह	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सांकरा
37	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सुरगी	मुड़पार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सोमनी
38	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सिघोला	उसरीबोड़	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सूरगी
39	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गडुला	डारागांव	सेवा सहकारी समिति मर्या0 ढाबा
40	सेवा सहकारी समिति मर्या0 घुमका	मुड़पार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उपरवाह

1	2	3	4
41	सेवा सहकारी समिति मर्या0 डोगरगांव	सालहे,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अर्जुनी
42	सेवा सहकारी समिति मर्या0खुर्सीटिकुल	बादराटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोकपुर
43	सेवा सहकारी समिति मर्या0तुमडीबोड़	बाकल	सेवा सहकारी समिति मर्या0भानपुरी
44	सेवा सहकारी समिति मर्या0भानपुरी	रीवागहन	सेवा सहकारी समिति मर्या0तुमडीबोड़
45	सेवा सहकारी समिति मर्या0खुर्जी	रातापयली	सेवा सहकारी समिति मर्या0खुर्सीपार
46	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खुर्सीपार	रीवागहन	सेवा सहकारी समिति मर्या0खुर्जी
47	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रतनभाट	छिंदीबिहरी	सेवा सहकारी समिति मर्या0गिदरी
48	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गिदरी	बिरुटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0उमरवाही
49	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उमरवाही	आयबांधा	सेवा सहकारी समिति मर्या0गिदरी
50	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गैदाटोला	सीताकसा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 जोशीलमती
51	सेवा सहकारी समिति मर्या0 जोशीलमती	थैलीटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गैदाटोला
52	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुहीकला	मेटेपार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुल्लू बंजारी
53	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुल्लू बंजारी	मासूल	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुहीकला
54	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रेगाकठेरा	दनगढ़	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोटाटोला
55	सेवा सहकारी समिति मर्या0 आतरगांव	करमतारा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कौडीकसा
56	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कौडीकसा	देवरसुर,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 आतरगांव
57	सेवा सहकारी समिति मर्या0 भरीटोला	खड़गांव,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोटाटोला
58	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मेढ़ा	धनडोगरी,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोलिहापुरी
59	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोरतलाव	भुरसाटोला,	आ0जा0सेवा सहकारी समिति मर्या0 सीतागोटा
60	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मोहारा	जारवाही,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रुवातला
61	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खुर्सीपार	खैरा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रुवातला
62	सेवा सहकारी समिति मर्या0 विचारपुर	चारभाठा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खुर्सीपार
63	सेवा सहकारी समिति मर्या0 छुरिया	पड़रामटोला,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 शिकारीमहका
64	सेवा सहकारी समिति मर्या0 शिकारी महका	दीवानटोला,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 छुरिया
65	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बा0 चारभाठा	मालडोगरी,	सेवा सहकारी समिति मर्या0छुरिया
66	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खोभा	चाबुकनाला,	आ0जा0 सेवा सहकारी समिति मर्या0 मडियान
67	सेवा सहकारी समिति मर्या0 महराजपुर	बापुटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0छुरिया

1	2	3	4
68	सेवा सहकारी समिति मर्या0 आमदानी	हिरावाही,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 आमलीपारा
69	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गड़ई	जीराटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 लिमो
70	सेवा सहकारी समिति मर्या0 लिमो	दुल्लापुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गड़ई
71	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बरबसपुर	बिरनपुरखुर्द,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 लिमो
72	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मानिकचौरी	जोम ,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 धोधा
73	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सण्डी	ओटेबध,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मानिकचौरी
74	सेवा सहकारी समिति मर्या0 विचारपुर	ढोडिया,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बुदेली
75	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बुदेली	नवगांव, लोधी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 विचारपुर
76	सेवा सहकारी समिति मर्या0 नचनिया	बरवाही,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पैलीमेटा
77	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पैलीमेटा	जगलपुर घाट,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 नचनिया
78	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बकरकटटा	लछनाझिरिया,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 नचनिया
79	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सांकरा	धीरी, साकरा, ई	टीप:-उक्त समिति सांकरा मे दो गाव है जो समिति से सटै हुए है 2 किमी. की परिधी में होने के कारण उक्त ग्रामो का अन्य समितियो में विलय न्याय संगत नहीं होगा
80	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अर्जुनी	ओडारबाध,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 तिलईरवार प.क. 1159
81	सेवा सहकारी समिति मर्या0 डोकराभाटा	खैरबना,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सलौनी
82	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बा0 अतरिया	मदनपुर,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उदयपुर
83	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उदयपुर	बड़गडा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रगरा
84	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रगरा	साल्हेकला,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 उदयपुर
85	सेवा सहकारी समिति मर्या0 भण्डारपुर	गोपालपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मुड़ीपार
86	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुकुरमुड़ा	गुमानपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सिलपट्टी
87	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सिलपट्टी	खैरी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुकुरमुड़ा
88	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमलीडीह	कातुलवाही	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोपालपुर
89	सेवा सहकारी समिति मर्या0 भोथली	ढोराडीह	सेवा सहकारी समिति मर्या0 अमलीडीह

अनुसूची - दो

क	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
निरंक			

अनुसूची-तीन

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
निरंक				